



कटक पछिले मैच में कंग्स इलेवन पंजाब को हराने के बाद आत्मवश्वास से ओतप्रोत केलकता नाइट राइडर्स आईपीएल के मैच में क्ल गत चैम्पियन मुंबई इंडियंस को हराकर जीत की लय कायम रखने उतरेंगे

दोनों टीमों का पछिला मुकबला संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था जिसमें केकेआर ने जीत दर्ज की थी। टूर्नामेंट में अच्छी शुरुआत नहीं कर सकी केकेआर का मनोबल लगातार दो जीत के बाद बढ़ा है। खासकर पंजाब जैसी मजबूत टीम को हराकर उसके हौसले बुलंद है।

केकेआर नौ मैचों में चार जीत और पांच हार के बाद तालकि में चौथे स्थान पर है। प्लेआफ चरण में प्रवेश की उम्मीदें पुख्ता करने के लिये उसका इरादा जीत दर्ज करने का होगा।

दिल्ली डेयरडेविल्स और पंजाब के खिलाफ केलकता के बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। गौतम गंभीर ने मोर्चे से अगुवाई करते हुए दोनों मैचों में अर्धशतक बनाये। राबनि उथप्पा और मनीष पांडे ने भी उपयोगी योगदान दिया।

{loadposition user13}

गेंदबाजों ने टूर्नामेंट में कहर बरपा रहे पंजाब के बल्लेबाजों को आठ विकेट पर **149** रन पर रोक दिया जिससे उनका आत्मवश्वास बढ़ा होगा।

अंतिम १० कदम में पीयूष चावला और मोरनी मोर्कल को शामिल करने का केकेआर का फैसला सटीक साबित हुआ। दोनों गेंदबाजों ने कुल आठ ओवर में **49** रन देकर पांच विकेट बांटे।

लेग स्पिनर पीयूष चावला ने **19** रन देकर तीन और तेज गेंदबाज मोर्कल ने **20** रन देकर दो विकेट लिये। रहस्यमयी स्पिनर सुनील नारायण के रहते केकेआर का गेंदबाजी आक्रमण काफी मजबूत है।

गत चैम्पियन मुंबई ने अभी तक नौ मैचों में सर्वाधिक जीत दर्ज की है ॥ उसे भली भांति पता है कि प्लेआफ में जगह पाने के लिये उसे बाकी सभी मैच जीतने होंगे ॥

उसने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद पर सात विकेट से जीत दर्ज की ॥ मुंबई के बल्लेबाजों में से कप्तान रोहित शर्मा और वेस्टइंडीज के कieron पोलार्ड मौजूदा सत्र में सफल रहे हैं ॥ अंबाती रायडू ने भी रन बनाये हैं ॥ उन्होंने लैंडल समिस के साथ कल उपयोगी साझेदारी करके टीम को जीत दिलाई ॥

मुंबई के सलामी बल्लेबाज सी गौतम ने भी कुछ अच्छी पारियां खेली लेकिन माइकल हस्सी और कोरे ॥ डरसन चल नहीं सके हैं ॥ गेंदबाजी में जहीर खान की गैर मौजूदगी टीम को खल रही है ॥ वैसे यदलसथि मलगा, प्रवीण कुमार, हरभजन सहि और प्रज्जान ओझा ॥ कईकई के रूप में अच्छा प्रदर्शन कर सके तो मेजबान को दक्खिन्तों आ सकती है ॥

(भाषा)